

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, INDIA  
शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार  
SHANTI SWARUP BHATNAGAR PRIZE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY  
2015

प्रशस्ति / CITATION

डॉ. बेदांगादास महान्ति / Dr Bedangadas Mohanty

भौतिक विज्ञान में वर्ष 2015 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के डॉ बेदांगादास महान्ति को सुदृढ़ अंतःक्रिया भौतिकी के मूल मानदंड, क्यूसीडी क्रॉसओवर तापमान को निर्धारित करने और नाभिकीय भौतिकी, खगोलभौतिकी और ब्रह्मांडिकी के क्षेत्रों हेतु उनके निहितार्थों सहित सबसे भारी पदार्थरोधी न्यूक्ली की खोज में उनके उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए दिया गया है।

The Shanti Swarup Bhatnagar Prize for the year 2015 in Physical Sciences has been awarded to Dr Bedangadas Mohanty of National Institute of Science Education and Research, Bhubaneswar, for his outstanding contributions and leadership role in determining the QCD crossover temperature, a fundamental parameter of strong interaction physics and discovery of the heaviest anti-matter nuclei, with implications for the fields of nuclear physics, astrophysics and cosmology.

(नरेंद्र मोदी)  
(Narendra Modi)  
अध्यक्ष/President

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और

भारत के प्रधानमंत्री

Council of Scientific & Industrial Research and  
Prime Minister of India

(गिरिश साहनी)  
(Girish Sahni)  
महानिदेशक/Director General

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् एवं

सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

Council of Scientific & Industrial Research and  
Secretary, Department of Scientific & Industrial Research

नई दिल्ली, 26 सितम्बर 2016

New Delhi, 26 September 2016